

DLIS-01

June – Examination 2024

**Diploma in Library and
Information Science Examination
LIBRARY CLASSIFICATION AND
CATALOGUING**

(Theory)

**पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण
(सिद्धान्त)**

Paper : DLIS-01

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 100

Note :- The question paper is divided into three Sections A, B and C. Write answers as per the given instructions.

निर्देश :- यह प्रश्न-पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section-A

10×2=20

(Very Short Answer Type Questions)

Note :- Answer all questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to 30 words. Each question carries 2 marks.

DLIS-01/7

(1)

TT-480 Turn Over

खण्ड—अ

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

1. (i) Define pure notation.

शुद्ध अंकन को परिभाषित कीजिए।

(ii) What do you mean by classified arrangement ?

वर्गीकृत व्यवस्थापन से आपका क्या आशय है ?

(iii) In which year, second edition of colon classification scheme was published ?

द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था ?

(iv) What is connection symbol of space and energy of fundamental categories ?

मूलभूत श्रेणी स्थान एवं ऊर्जा का योजक चिन्ह क्या है ?

DLIS-01/7

(2)

TT-480

(v) Mention names of any *two* devices used in colon classification.

द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए।

(vi) What do you mean by 'False Link' ?

मिथ्या कड़ी से आपका क्या तात्पर्य है ?

(vii) What do you mean by divided catalogue ?

विभाजित सूची से आपका क्या आशय है ?

(viii) Define Author.

लेखक की परिभाषा दीजिए।

(ix) What is full form of 'OPAC' ?

'ओपेक' का पूरा नाम लिखिए।

(x) Define corporate body in cataloguing.

सूचीकरण में समष्टि निकाय को परिभाषित कीजिए।

Section-B

4×10=40

(Short Answer Type Questions)

Note :- Answer any *four* questions. Each answer should not exceed **200** words. Each question carries 10 marks.

खण्ड—ब

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम **200** शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

2. Discuss aims and need of classification.

वर्गीकरण के उद्देश्य एवं आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

3. Explain principle of 'Later in Time' with suitable examples.

'कालक्रम में उत्तरता' के सिद्धान्त को उचित उदाहरण सहित समझाइए।

4. What are the benefits of devices used in colon classification ?

द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त विधियों के क्या लाभ हैं ?

5. Explain analytical-synthetic and enumerative classification scheme.

विश्लेषी-संश्लेषणात्मक और परिगणात्मक वर्गीकरण पद्धति को समझाइए।

6. Discuss merits of card form catalogue.

पत्रक स्वरूप सूची के गुणों की चर्चा कीजिए।

7. Discuss the objectives and functions of making added entries.

सहायक प्रविष्टियाँ निर्मित करने के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

8. What are the demerits of dictionary catalogue ?

सार्वनुवर्णी सूची के दोष की चर्चा कीजिए।

9. Explain usefulness and importance of library catalogue.

पुस्तकालय सूची की उपयोगिता एवं महत्व को समझाइए।

Section-C

2×20=40

(Long Answer Type Questions)

Note :- Answer any *two* questions. You have to delimit your each answer maximum up to **500** words. Each question carries 20 marks.

खण्ड—स

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम **500** शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

10. Differentiate classified catalogue and dictionary catalogue.

आनुवर्गिक सूची एवं शब्दकोषीय सूची की तुलना कीजिए।

11. Discuss salient features of Dewey Decimal classification scheme (19th edition).

ड्यूई की दशमलव वर्गीकरण पद्धति (19वाँ संस्करण) की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

12. What do you mean by notation ? Discuss its qualities.

अंकन से आप क्या समझते हैं ? इसके गुणों का वर्णन कीजिए।

13. What is chain procedure ? Discuss its merits and demerits.

शृंखला प्रक्रिया क्या है ? शृंखला प्रक्रिया के गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए।